



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट दिनांक 12-06-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान अवैध तस्करी हेतु केंटर में भरकर जायी जा रही हरियाणा ब्राड की अंग्रेजी शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

➤ **अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपये ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11/12.06.21 की रात्रि में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त रोहताश पुत्र पालेराम निवासी म0न0 1058/31 सन्त कबीर बस्ती बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा को एक अदद केंटर (ट्रक) नं0 JH 01 CR 7603, जिसमें हरियाणा मार्का की अवैध अंग्रेजी शराब की 160 पेटे जिन्में कुल बोतल-959, कुल हाफ- 672, कुल क्वार्टर- 1680 सहित गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 377/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम बनाम रोहताश उपरोक्त व गाडी मालिक अमित पुत्र राम कावर निवासी Q.No.1/8 NEAR HOLLY CROSS BALWARI P&T COLONY LALPUR RANCHI 834001 के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कि यह शराब मेरे गाडी मालिक अमित ने हरियाणा से बिहार के लिए लोड करायी है मेरी गाडी का मालिक अमित इसी गाडी से अबैध शराब की तस्करी कराता है । मेरी गाडी हाईवे के ओवर ब्रिज से उतरते समय डिवाइडर से टकरा जाने के कारण कुछ कमी आ गयी थी उस कमी को सही कराने के लिए मैं किसी मिस्त्री की तलाश कर रहा था कि आपने मुझे पकड लिया ।

गाडी को चैक किया गया तो गाडी से सम्बन्धित कोई भी परिवहन पास नहीं पाया गया । आयशर केन्टर से बरामद हरियाणा प्रान्त के लिए बिक्री के लिए अधिकृत शराब से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा अपने ड्राईवर के माध्यम से हरियाण प्रान्त मे बिक्री हेतु अनुमन्य शराब को बिहार राज्य मे सुनियोजित तरीके से तस्करी कराकर बिक्री करायी जा रही है जिसमे सरकार को प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व को क्षति पहुँच रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रोहताश पुत्र पालेराम निवासी म0न0 1058/31 सन्त कबीर वस्ती बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा ।

नाम पता गाडी मालिक अभियुक्त:- (गिरफ्तार नहीं)

1-अमित पुत्र राम कावर निवासी Q.No.1/8 NEAR HOLLY CROSS BALWARI P&T COLONY LALPUR RANCHI 834001

बरामदगी का विवरण:-

कुल अंग्रेजी शराब पेटी 160 हरियाणा ब्राण्ड ।

अंग्रेजी शराब ब्राण्ड- मैक डबल नं0 1

1. 959 बोतल
2. 528 हाफ
3. 1296 क्वार्टर

अंग्रेजी शराब ब्राण्ड इम्पिरियल ब्लू

1. 144 हाफ,
2. 384 क्वार्टर

केंटर (ट्रक) न0 JH 01 CR 7603

कुल बोतल-959, कुल हाफ- 672, कुल क्वार्टर- 1680

कीमत करीब - दस लाख रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 श्री गौरव शर्मा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 श्री अंकित मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
4. है0का0681 हरवेन्द्र सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
5. का0 920 संदीप थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
6. का0 1497 मुकम्मिल हसन थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।